

All India Trade Test - 2024 for Craftsmen Training Scheme (CTS)
Trade Name: Fitter_Year 2
Year: 2nd Year

Exam Date :
Exam Time :


Note:

1. Tick the correct option out of four alternatives provided
2. All questions carry equal marks (2 Marks each)
3. There is no negative marking


Sr. No.	Client Question ID	Question Body and Alternatives	Marks	Negative Marks
Trade Theory				
1	1	<p>Which grade slip gauge is used for precision tool room applications? प्रिसिशन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है?</p> <p>A1 : Grade 00 Grade 00</p> <p>A2 : Grade 0 Grade 0</p> <p>A3 : Grade I Grade I</p> <p>A4 : Grade II Grade II</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
2	2	<p>Which material is used to make slip gauge block? स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है?</p> <p>A1 : Tool steel टूल स्टील</p> <p>A2 : Low grade steel लो ग्रेड स्टील</p> <p>A3 : High grade steel with low thermal expansion उच्च ग्रेड स्टील</p> <p>A4 : High carbon steel उच्च कार्बन स्टील</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
3	3	<p>Which finishing operation is performed by the tool that rotate and reciprocate simultaneously? कौन सा परिष्करण ऑपरेशन में, टूल साथ-साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है -</p> <p>A1 : Drilling ड्रिलिंग</p> <p>A2 : Honing होनिंग</p> <p>A3 : Lapping लैपिंग</p> <p>A4 : Grinding ग्राइंडिंग</p>	2.0	0.00
Trade Theory				

4	4	<p>What is lapping? लैपिंग क्या है ?</p> <p>A1 Filing operation : फाइलिंग ऑपरेशन</p> <p>A2 Grinding operation : ग्राइंडिंग ऑपरेशन</p> <p>A3 Chiselling operation : चिज़लिंग ऑपरेशन</p> <p>A4 Precision finishing operation : प्रिसिशन फिनिशिंग ऑपरेशन</p>	2.0	0.00
---	---	---	-----	------

Trade Theory

5	5	<p>What is the name of lap tool? इस लैप टूल का नाम क्या है?</p>  <p>A1 Split bush lap : स्लिट बुश लैप</p> <p>A2 Adjustable ring lap : एडजस्टेबल रिंग लैप</p> <p>A3 Adjustable solid lap : एडजस्टेबल सॉलिड लैप</p> <p>A4 Charging cylindrical lap : चार्जिंग सिलिंड्रिकल लैप</p>	2.0	0.00
---	---	--	-----	------

Trade Theory

6	6	<p>What is marked as 'X'? चिह्नित किये गए 'X' भाग का नाम क्या है?</p>  <p>A1 Length : लंबाई</p> <p>A2 Depth surface : डेपथ सरफेस</p>	2.0	0.00
---	---	--	-----	------

A3 Contact rollers

: कांटेक्ट रोलर्स

A4 Width

: चौड़ाई


Trade Theory

7

7

What is marked as 'X'?

चिह्नित किये गए 'X' भाग का नाम क्या है?



A1 Height of slip gauge

: स्लिप गेज की ऊंचाई

A2 Length of sine bar

: साइन बार की लंबाई

A3 Datum surface

: डैटम सरफेस

A4 Adjacent side

: एजैसन्ट साइड


Trade Theory

8

8

What is the height of slip gauge ($q = 25^\circ = 0.4226$)?

इस स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी है? ($\theta = 25^\circ = 0.4226$)



A1 41.26

: 41.26

A2 42.26

: 42.26

A3 43.26

: 43.26

A4 44.26

: 44.26

Trade Theory

9

9

What is the grade of slip gauges are used for inspection purpose?

निरीक्षण के उद्देश्य से स्लिप गेज के किस ग्रेड का उपयोग किया जाता है?

2.0

0.00

A1
: Grade I accuracy

Grade I accuracy

A2
: Grade '0' accuracy

Grade '0' accuracy

A3
: Grade '00' accuracy

Grade '00' accuracy

A4
: Grade II accuracy

Grade II accuracy


Trade Theory

10

10

What is the method of build of size using slip gauge?

स्लिप गेज का उपयोग करने का विधि क्या है?



A1
: Wringing

त्रिनिंग

A2
: Sliding

स्लाइडिंग

A3
: Glazing

ग्लेज़िंग

A4
: Loading

लोडिंग

Trade Theory

11

11

What is the finishing process carried out with abrasive sticks to correct the profile of internal cylindrical surfaces?

अपघर्षक स्टिकस के साथ बेलनाकार सतहों के प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया क्या है?

A1
: Lapping

लैपिंग

A2
: Honing

होनिंग

A3
: Grinding

ग्राइंडिंग

A4
: Filing

फाइलिंग

Trade Theory

12

12

Which is the hardest of all abrasive material and used for lapping tungsten carbide?

टंगस्टन कार्बाइड के लैपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थों में से सबसे कठोर कौन सा है?

A1
: Silicon carbide

2.0


0.00


2.0

0.00

2.0

0.00

		<p>सिलिकॉन कार्बाइड</p> <p>A2 : Boron carbide</p> <p>बोरोन कार्बाइड</p> <p>A3 : Diamond</p> <p>हीरा</p> <p>A4 : Aluminium oxide</p> <p>एल्युमीनियम ऑक्साइड</p>		
Trade Theory				
13	13	<p>What is the name of instrument? इस यंत्र का नाम क्या है?</p>  <p>A1 : Depth vernier gauge डेप्थ वर्नियर गेज</p> <p>A2 : Vernier height gauge वर्नियर हाइट गेज</p> <p>A3 : Clamp type height gauge क्लैप टाइप हाइट गेज</p> <p>A4 : Height gauge with slip gauge holder स्लिप गेज होल्डर के साथ हाइट गेज</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
14	14	<p>What grade of slip gauge is used in general workshop? सामान्य कार्यशाला में किस ग्रेड की स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है?</p> <p>A1 : Grade I accuracy Grade I accuracy</p> <p>A2 : Grade II accuracy Grade II accuracy</p> <p>A3 : Grade '0' accuracy Grade '0' accuracy</p> <p>A4 : Grade '00' accuracy Grade '00' accuracy</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
15	15	<p>What is the method of surface hardening? सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है?</p>	2.0	0.00



A1 Nitriding

: नाइट्राइडिंग

A2 Pack - carburising

: पैक - कार्बुरिसिंग

A3 Flame hardening

: फ्लेम हार्डनिंग

A4 Induction hardening

: इंडक्शन हार्डनिंग

Trade Theory

16	16	<p>What is the process to refine the structure of steel component? स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या है?</p> <p>A1 Tempering : टेम्परिंग</p> <p>A2 Annealing : एनीलिंग</p> <p>A3 Hardening : हार्डनिंग</p> <p>A4 Normalising : नॉर्मलाइजिंग</p>	2.0	0.00
----	----	--	-----	------


Trade Theory

17	17	<p>Which method of surface hardening is done in a heated salt bath? गर्म साल्ट बाथ में कौन सा सर्फेस हार्डनिंग की विधि की जाती है?</p> <p>A1 Flame hardening : नाइट्राइडिंग</p> <p>A2 Gas carburising : गैस कार्बुरिसिंग</p> <p>A3 Pack carburising : पैक-कार्बुरिसिंग</p> <p>A4 Liquid carburising : लिक्विड-कार्बुरिसिंग</p>	2.0	0.00
----	----	--	-----	------


Trade Theory

18	18	<p>Which method of heat treatment to improve machinability and ductility in the job? उष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किस जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होगा?</p> <p>A1 Annealing : एनीलिंग</p>	2.0	0.00
----	----	---	-----	------

		<p>A2 Hardening : हार्डनिंग</p> <p>A3 Tempering : टेम्परिंग</p> <p>A4 Normalizing : नॉर्मलाइजिंग</p>		
Trade Theory				
19	19	<p>What is the disadvantage of flame hardening in the heat treatment process? हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डिंग का नुकसान क्या है?</p> <p>A1 More distortion : अधिक विकृति</p> <p>A2 Long hardening time : हार्डनिंग समय ज्यादा होना</p> <p>A3 Small depth of hardening : हार्डनिंग की कम गहराई</p> <p>A4 Not suitable for small workpieces : छोटे वर्कपीस के लिए उपयुक्त नहीं है</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
20	20	<p>What is the name of method in metallic coating done by rolling or drawing the layers of metal on the base metal? बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल या लेयर्स खींचने के द्वारा किए गए धात्विक कोटिंग करने की विधि का नाम क्या है?</p> <p>A1 Spraying : स्प्रेइंग</p> <p>A2 Cladding : क्लैडिंग</p> <p>A3 Enamelling : इनेमेलिंग</p> <p>A4 Molten metal bath : मोल्टन मेटल बाथ</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
21	21	<p>Which type of key used if the hub of pulley has to axially slide on the shaft to some distance? यदि हब या पुल्ली को अक्षीय रूप से कुछ दूरी तक शाफ्ट पर स्लाइड करना है, तो किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है?</p> <p>A1 Feather key : फेदर की</p> <p>A2 Flat saddle key : फ्लैट सैडल की</p> <p>A3 Circular taper key : सर्कुलर टेपर की</p> <p>A4 Hollow saddle key : होलो सैडल की</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
22	22	<p>What is the purpose of normalising? नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है?</p> <p>A1 Add cutting ability : काटने की क्षमता जोड़ना</p>	2.0	0.00

		<p>A2 Develop high hardness : उच्च कठोरता का विकास करना</p> <p>A3 Increase wear resistance : घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाएं</p> <p>A4 Remove stress and strain : स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना</p>		
Trade Theory				
23	23	<p>Which structure of steel contain 0% carbon? स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है?</p> <p>A1 Ferrite : फेराइट</p> <p>A2 Pearlite : पियरलाइट</p> <p>A3 Austenite : ऑस्टेनाइट</p> <p>A4 Cementite : सीमेंटाइट</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
24	24	<p>What is the name of key? इस की का नाम क्या है?</p>  <p>A1 Parallel sunk key : पैरेलल संक की</p> <p>A2 Gib head key : गिब हेड की</p> <p>A3 Wood ruff key : वूडरफ की</p> <p>A4 Tapper sunk key : टेपर संक की</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
25	25	<p>What is the purpose of annealing? एनीलिंग का उद्देश्य क्या है?</p> <p>A1 To soften the steel : स्टील को नरम करने के लिए</p> <p>A2 To add cutting ability : काटने की क्षमता जोड़ने के लिए</p>	2.0	0.00

		<p>A3 To increase wear resistance : घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए</p> <p>A4 To refine the grain structure of the steel : स्टील की ग्रेन संरचना को रिफाइन करने के लिए</p>		
Trade Theory				
26	26	<p>What is the name if hot steel cooled rapidly to form a new structure? एक नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का नाम क्या है?</p> <p>A1 Ferrite : फेराइट</p> <p>A2 Austenite : ऑस्टेनाइट</p> <p>A3 Martensite : मार्टेन्साइट</p> <p>A4 Pearlite : पियरलाइट</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
27	27	<p>What is the process to add cutting ability and wear resistance on steel? काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन करने की प्रक्रिया क्या है?</p> <p>A1 Tempering : टेम्परिंग</p> <p>A2 Annealing : एनीलिंग</p> <p>A3 Normalising : नॉर्मलाइजिंग</p> <p>A4 Hardening : हार्डनिंग</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
28	28	<p>How the mechanical properties of steel like strength, toughness, ductility are affected? स्टील के यांत्रिक गुणों जैसे स्ट्रेंथ, चिमडापन, डक्टिलिटी कैसे प्रभावित होते हैं?</p> <p>A1 By tempering : टेपरिंग के द्वारा</p> <p>A2 By hardening : हार्डनिंग के द्वारा</p> <p>A3 By annealing : एनीलिंग के द्वारा</p> <p>A4 By normalising : नॉर्मलाइजिंग के द्वारा</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
29	29	<p>What is the name of limit gauge? इस लिमिट गेज का नाम क्या है?</p>	2.0	0.00



A1 Plain ring gauge

: प्लेन रिंग गेज

A2 Taper plug gauge

: टैपर प्लग गेज

A3 Progressive plug gauge

: प्रग्रेसिव प्लग गेज


A4 Double ended plug gauge


: डबल एंडेड प्लग गेज


Trade Theory

30	30	<p>What is the use of ring gauge? रिंग गेज का उपयोग क्या है?</p> <p>A1 Check hole diameter : छेद व्यास की जाँच करना</p> <p>A2 Check shaft diameter : बाहरी व्यास की जाँच करना</p> <p>A3 Check tapered shaft diameter : टेपर शाफ्ट व्यास की जाँच करना</p> <p>A4 Check internal thread diameter : आंतरिक थ्रेड व्यास की जाँच करना</p>	2.0	0.00
----	----	---	-----	------

Trade Theory

31	31	<p>What is the name of the gauge? गेज का नाम क्या है?</p>  <p>A1 Ring gauge : रिंग गेज</p> <p>A2 Snap gauge : स्नैप गेज</p>	2.0	0.00
----	----	--	-----	------

		<p>A3 Taper ring gauge : टेपर रिंग गेज</p> <p>A4 Internal thread gauge : इंटरनल थ्रेड गेज</p>		
Trade Theory				
32	32	<p>What is the gauge used? इस गेज का उपयोग क्या है?</p>  <p>A1 Thread ring gauge : थ्रेड रिंग गेज</p> <p>A2 Thread plug gauge : स्कू थ्रेड प्लग गेज</p> <p>A3 Screw pitch gauge : स्कू पिच गेज</p> <p>A4 Thread caliper gauge : थ्रेड कैलिपर गेज</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
33	33	<p>Why the double row roller bearing is used? डबल रो रोलर बियरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है?</p> <p>A1 To take axial load : अक्षीय भार लेने के लिए</p> <p>A2 To take radial load : रेडियल लोड लेने के लिए</p> <p>A3 To take heavy axial load : भारी अक्षीय भार लेने के लिए</p> <p>A4 To take heavy radial load : भारी रेडियल भार लेने के लिए</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
34	34	<p>What is the name of bearing? इस बियरिंग का नाम क्या है?</p>	2.0	0.00




- A1 Needle bearing
: नीडल बियरिंग
- A2 Thrust ball bearing
: थ्रस्ट बॉल बियरिंग
- A3 Taper roller bearing
: टेपर रोलर बियरिंग
- A4 Angular contact ball bearing
: एंगुलर कान्टैक्ट बॉल बियरिंग

Trade Theory

35 35

What is the name of part marked 'X'?
'X' के रूप में चिह्नित भाग का नाम क्या है?



- A1 Ball case
: बॉल केस
- A2 Inner race
: इनर रेस
- A3 Outer race
: आउटर रेस
- A4 Ball separating gauge
: बॉल सेपरैटिंग गेज


Trade Theory

36 36

Which bearing material is used for light loading and low speed application?
लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बियरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है?

- A1 Cast iron
: कास्ट आयरन
- A2 Tin bronze
: टिन कांस्य

2.0 0.00

		<p>A3 : Cadmium based alloy कैडमियम आधारित मिश्र धातु</p> <p>A4 : Copper and lead alloys कॉपर और लीड मिश्र धातु</p>		
Trade Theory				
37	37	<p>Which bearing carry the load parallel to its bearing axis? किस बियरिंग मे लोडिंग बियरिंग अक्ष के पैरेलल(समानांतर) होता है?</p> <p>A1 Split bearing : स्प्लिट बियरिंग</p> <p>A2 Plain bearing : प्लेन बियरिंग</p> <p>A3 Thrust bearing : थ्रस्ट बियरिंग</p> <p>A4 Radial bearing : रेडियल बियरिंग</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
38	38	<p>Which bearing material is best suited for hard journals? हार्ड जर्नल के लिए कौन सी बियरिंग मटेरियल सबसे उपयुक्त है?</p> <p>A1 Sintered alloy : सिन्टर मिश्र धातु</p> <p>A2 Aluminium alloy : एल्यूमिनियम मिश्र धातु</p> <p>A3 Copper lead alloy : तांबा सीसा मिश्र धातु</p> <p>A4 Cadmium based alloy : कैडमियम आधारित मिश्र धातु</p>	2.0	0.00
Workshop Calculation Science				
39	39	<p>What is the formula for circumference of a circle? वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है?</p> <div style="text-align: center;">  <p>The diagram shows a circle with a center point. A vertical dashed line represents the diameter, labeled 'd'. A solid line from the center to the circumference represents the radius, labeled 'r'. There are also two other solid lines from the center to the circumference, one to the top-right and one to the bottom-left, forming a cross with the radius lines.</p> </div> <p style="text-align: right; font-weight: bold;">WSCN231.1Q5</p>	2.0	0.00
		<p>A1 : πr^2</p> <p>A2 :</p>		

$$\frac{\pi d^2}{4}$$

A3

:

$$2\pi r$$

A4

:

$$\pi r$$

Workshop Calculation Science

40


40

What is the formula for area of the circle?

2.0

0.00

वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या है?



WSCN23L1Q7

A1

:

$$\frac{\pi r^2}{2}$$

A2

:

$$\pi r^2$$

A3

:

$$2\pi r$$

A4

:

$$\frac{\pi d}{2}$$

Workshop Calculation Science

41


41

Which line is called as chord?

2.0

0.00

कौन सी लाइन को ज्या कहा जाता है?



WSCN23L2Q28

A1

:

ED


ED
 A2 AB
 :
 AB
 A3 OD
 :
 OD
 A4 OE
 :
 OE

Workshop Calculation Science

42 42

Which type of stress?
 कौन-सा प्रतिबल है?

2.0 0.00



A1 Tensile stress

: तनाव प्रतिबल

A2 Compressive stress

: सम्पीडन प्रतिबल

A3 Shear stress

: कर्तन प्रतिबल

A4 Torsional stress

: टॉर्सनल प्रतिबल

Workshop Calculation Science

43 43

What is the unit of strain?
 विकृति की इकाई क्या है?

2.0 0.00

A1 Kg/cm²

: Kg/cm²

A2 Newton/metre²

: Newton/metre²

A3 Metre

: Metre

A4 No unit

: No unit

Workshop Calculation Science

44 44

Which symbol is used to express change in length?
 लम्बाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है?

2.0 0.00

A1 L

: L

A2 δl


: δl

A3 I
:
I
A4 e
:
e

Engineering Drawing

45 45

The head for boiler application's shown in the figure given below is _____
नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए बॉयलर एप्लिकेशन के लिए हेड है.....



A1 snap
:
स्नेप

A2 pan
:
पैन

A3 conical
:
शंकाकार

A4 steeple
:
स्टीपल

Engineering Drawing

46 46

Riveted joints is a _____
रिवेटेड जॉइंट _____ है

A1 permanent joints
:
स्थायी जॉइंट

A2 temporary joints
:
अस्थायी जॉइंट

A3 semi permanent
:
अर्ध स्थायी

A4 none of these
:
इनमें से कोई नहीं

Engineering Drawing


47 47

Identify the given rivet.
दिए गए रिबेट को पहचानें।

2.0 0.00

2.0 0.00

2.0 0.00



EDNG16211008

A1 Snap head

:

सैप हेड

A2 Flat head

:

फ्लाट हेड

A3 Counter sunk

:

काउंटर सन्क

A4 Pan head

:

पैन हेड

Engineering Drawing

48	48	<p>Which materials pipe is used for drainage pipe line? ड्रेनेज पाइपलाइन के लिए किस मटेरियल पाइप का उपयोग किया जाता है?</p> <p>A1 PVC pipe : PVC पाइप</p> <p>A2 Brass Pipe : पीतल के पाइप</p> <p>A3 G.I. Pipe : G.I. पाइप</p> <p>A4 Steel pipe : स्टील का पाइप</p>	2.0	0.00
----	----	--	-----	------

Engineering Drawing

49	49	<p>Which of the following is used to block the pipe at one end? निम्न में से किसका प्रयोग पाइप को एक सिरे पर ब्लॉक करने के लिए किया जाता है?</p> <p>A1 Plug : प्लग</p> <p>A2 Union : यूनियन</p> <p>A3 Reducer : रिड्यूसर</p> <p>A4 Couplings : कपलिंग्स</p>	2.0	0.00
----	----	---	-----	------

Engineering Drawing

50	50	<p>Which one of the following accommodates four pipes in a pipe fitting? निम्नलिखित में से कौन-सा एक पाइप फिटिंग में चार पाइपों को समायोजित करता है?</p>	2.0	0.00
----	----	--	-----	------

		A1 Union : यूनियन A2 Cross : क्रॉस A3 Elbow : एलबो A4 Tee : टी		
Employability Skills				
51	51	Complete the sentence with suitable describing words It is a _____ neighbourhood. One need not fear. Complete the sentence with suitable describing words It is a _____ neighbourhood. One need not fear. A1 good : good A2 big : big A3 safe : safe A4 expensive : expensive	2.0	0.00
Employability Skills				
52	52	Complete the sentence with suitable describing words There isn't any amusement park in the area. It is a ___ place. Complete the sentence with suitable describing words There isn't any amusement park in the area. It is a ___ place. A1 polluted : polluted A2 dry : dry A3 noisy : noisy A4 boring : boring	2.0	0.00
Employability Skills				
53	53	Complete the sentence with suitable describing words There is a factory in the area. The air is _____. Complete the sentence with suitable describing words There is a factory in the area. The air is _____. A1 polluted : polluted A2 boring : boring A3 uneven : uneven A4 noisy : noisy	2.0	0.00
Employability Skills				
54	54	Complete the sentence with suitable describing words There is water scarcity in the locality. The area is _____. Complete the sentence with suitable describing words There is water scarcity in the locality. The area is _____. A1 uneven :	2.0	0.00

		<p>uneven</p> <p>A2 noisy :</p> <p>noisy</p> <p>A3 dry :</p> <p>dry</p> <p>A4 boring :</p> <p>boring</p>		
Employability Skills				
55	55	<p>Complete the sentence with suitable describing words The transportation to some rural areas is difficult as the roads are _____</p> <p>Complete the sentence with suitable describing words The transportation to some rural areas is difficult as the roads are _____</p> <p>A1 dry :</p> <p>dry</p> <p>A2 polluted :</p> <p>polluted</p> <p>A3 boring :</p> <p>boring</p> <p>A4 uneven :</p> <p>uneven</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
56	56	<p>What help us to maintain the balance between mental and physical activities?</p> <p>What help us to maintain the balance between mental and physical activities?</p> <p>A1 Hobbies :</p> <p>Hobbies</p> <p>A2 Running :</p> <p>Running</p> <p>A3 Walking :</p> <p>Walking</p> <p>A4 Reading :</p> <p>Reading</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
57	57	<p>When you meet the instructor inside or outside the ITI, it is....</p> <p>When you meet the instructor inside or outside the ITI, it is....</p> <p>A1 always formal :</p> <p>always formal</p> <p>A2 . formal inside the ITI :</p> <p>. formal inside the ITI</p> <p>A3 informal the ITI :</p> <p>informal the ITI</p> <p>A4 informal outside :</p> <p>informal outside</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
58	58	<p>Role models _____ people to follow them</p> <p>Role models _____ people to follow them</p> <p>A1 elevate :</p> <p>elevate</p>	2.0	0.00


		<p>A2 instruct : instruct</p> <p>A3 inspire : inspire</p> <p>A4 motivate : motivate</p>		
Employability Skills				
59	59	<p>Spoken communication is usually not only _____ but also _____ Spoken communication is usually not only _____ but also _____</p> <p>A1 formal, informal : formal, informal</p> <p>A2 verbal, nonverbal : verbal, nonverbal</p> <p>A3 verbal, informal : verbal, informal</p> <p>A4 formal, nonverbal : formal, nonverbal</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
60	60	<p>The immediate surroundings to the place you live in is called _____ The immediate surroundings to the place you live in is called _____</p> <p>A1 village : village</p> <p>A2 town : town</p> <p>A3 city : city</p> <p>A4 neighbourhood : neighbourhood</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
61	61	<p>The conditions in a place that affect the behaviour and development of somebody or something is called _____ The conditions in a place that affect the behaviour and development of somebody or something is called _____</p> <p>A1 neighbourhood : neighbourhood</p> <p>A2 environment : environment</p> <p>A3 locality : locality</p> <p>A4 facilities : facilities</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
62	62	<p>Which kind of persons are with very good behaviour, achievements and lead as an example? Which kind of persons are with very good behaviour, achievements and lead as an example?</p> <p>A1 customer service executives : customer service executives</p> <p>A2 ITI instructors : ITI instructors</p>	2.0	0.00

		<p>ITI instructors</p> <p>A3 : role models</p> <p>role models</p> <p>A4 : sales supervisors</p> <p>sales supervisors</p>		
Employability Skills				
63	63	<p>There ----- a coffee shop -----the park.</p> <p>There ----- a coffee shop -----the park.</p> <p>A1 : are, next to</p> <p>are, next to</p> <p>A2 : is, next to</p> <p>is, next to</p> <p>A3 : is, next</p> <p>is, next</p> <p>A4 : are, next</p> <p>are, next</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
64	64	<p>Rainwater harvesting ----- to prevent water scarcity</p> <p>Rainwater harvesting ----- to prevent water scarcity</p> <p>A1 : gives</p> <p>gives</p> <p>A2 : gave</p> <p>gave</p> <p>A3 : help</p> <p>help</p> <p>A4 : helps</p> <p>helps</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
65	65	<p>Identify the opposites. clean x -----, healthy x -----</p> <p>Identify the opposites. clean x -----, healthy x -----</p> <p>A1 : dirty, health</p> <p>dirty, health</p> <p>A2 : . dirty, healthy</p> <p>. dirty, healthy</p> <p>A3 : dirt, unhealthy</p> <p>dirt, unhealthy</p> <p>A4 : dirty, unhealthy</p> <p>dirty, unhealthy</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
66	66	<p>Which one is not an adventure?</p> <p>Which one is not an adventure?</p> <p>A1 : climbing mountains</p> <p>climbing mountains</p> <p>A2 : trekking</p> <p>trekking</p>	2.0	0.00

		<p>A3 surfing : surfing</p> <p>A4 driving : driving</p>		
Employability Skills				
67	67	<p>Travelling in the sea is called a _____ Travelling in the sea is called a _____</p> <p>A1 voyage : voyage</p> <p>A2 boating : boating</p> <p>A3 fishing : fishing</p> <p>A4 tour : tour</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
68	68	<p>There are many dos and don'ts to be -----while preparing for/ attending an _____ There are many dos and don'ts to be -----while preparing for/ attending an _____</p> <p>A1 there, interview : there, interview</p> <p>A2 identify, : identify,</p> <p>A3 identified, interviewed : identified, interviewed</p> <p>A4 identified, interview : identified, interview</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
69	69	<p>Always ----- your mobile phone ----- silent mode. Always ----- your mobile phone ----- silent mode.</p> <p>A1 know, in : know, in</p> <p>A2 know, of : know, of</p> <p>A3 keep, in : keep, in</p> <p>A4 keep, of : keep, of</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
70	70	<p>The Everest, the ----- peak in the world, ----- in Tibet. The Everest, the ----- peak in the world, ----- in Tibet.</p> <p>A1 high, is : high, is</p> <p>A2 higher, is : higher, is</p> <p>A3 highest, are : highest, are</p>	2.0	0.00

		highest, are A4 highest, is : highest, is		
Employability Skills				
71	71	Which language is essential to become a Computer professional? Which language is essential to become a Computer professional? A1 Mother tongue : Mother tongue A2 Chinese : Chinese A3 English : English A4 Hindi : Hindi	2.0	0.00
Employability Skills				
72	72	Which is the Synonym for "loyal"? Which is the Synonym for "loyal"? A1 Faithful : Faithful A2 Prosperous : Prosperous A3 Utopian : Utopian A4 Perfect : Perfect	2.0	0.00
Employability Skills				
73	73	When you speak to your supervisor, you should be _____. When you speak to your supervisor, you should be _____. A1 Aggressive : Aggressive A2 Formal : Formal A3 Informal : Informal A4 Casual : Casual	2.0	0.00
Employability Skills				
74	74	Which one is the describing word from among the words given? Which one is the describing word from among the words given? A1 Mobile phone : Mobile phone A2 Water : Water A3 Pull : Pull	2.0	0.00

		A4 : Magnificent Magnificent		
Employability Skills				
75	75	A _____ sentence is a sentence that expresses a direct , command, invitations, warning or instruction. A _____ sentence is a sentence that expresses a direct , command, invitations, warning or instruction. A1 simple : simple A2 compound : compound A3 imperative : imperative A4 adjective : adjective	2.0	0.00



 SAMPLE QUESTION PAPER SET 2

Fitter - 2nd year (Eng) SET 2

Question Number	Correct Alternative position
1	A3
2	A3
3	A2
4	A4
5	A1
6	A1
7	A1
8	A2
9	A2
10	A1
11	A2
12	A3
13	A4
14	A2
15	A2
16	A4
17	A4
18	A1
19	A4
20	A2
21	A1
22	A4
23	A1
24	A1
25	A1
26	A3
27	A4
28	A2
29	A3
30	A2
31	A3
32	A2
33	A4
34	A1
35	A4
36	A1
37	A3
38	A2
39	A3
40	A2
41	A2
42	A3
43	A4
44	A2
45	A4

46	A3
47	A1
48	A1
49	A1
50	A2
51	A3
52	A4
53	A1
54	A3
55	A4
56	A1
57	A1
58	A3
59	A2
60	A4
61	A2
62	A3
63	A2
64	A4
65	A4
66	A4
67	A1
68	A4
69	A3
70	A4
71	A3
72	A1
73	A2
74	A4
75	A3

KEY ANSWER SET 2